



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

सामिलिका प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

**भाद्र 27, बुधवार, शाके 1941–सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941–September 18, 2019**

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 09, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9598 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Sri Karanpur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Sri Karanpur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका श्रीकरणपुर ज़िला श्रीगंगानगर (राज०)**प्रोफार्मा:-क**

वार्ड संख्या	विवरण
01	नगरपालिका सीमा से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दाये हिस्से को शामिल करते हुए स्कूल का दक्षिण पश्चिम कोर्नर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी उत्तरी कोर्नर ट्रास्फार्मर तक से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दाये हिस्से को शामिल करते हुए वीर सिंह/लक्ष्मण सिंह की दुकान तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गायत्री देवी के मकान से आगे चलते हुए रामदेव मन्दिर वाले हिस्से (दाया) को शामिल करते हुए गली में बाया ओर घुमकर दाई ओर घुमते हुए गेवर राम पण्डित के मकान को शामिल करते हुए मुख्य सड़क तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दाई हिस्से में स्थित राम लाल मोची के मकान व नवनिर्मित अम्बेडकर भवन वाले हिस्से को शामिल करते हुए वार्ड न. 4 की सीमा तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा तक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा/स्कूल के कोर्नर तक।
02	श्री गुरुनानक सी0सै0 स्कूल के पश्चिमी- दक्षिणी कोने से पूर्व दिशा की ओर १याम लाल की दुकान तक वहां से दक्षिण दिशा की ओर पतराम के मकान तक वहां से पश्चिम दिशा की ओर बिरबल मिस्त्री के मकान तक वहां से दाया हिस्सा सम्पूर्ण को

	शामिल करते हुए हरचंद मेघवाल के मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने तक वहां से उत्तर की ओर श्री गुरुनानक सी०सै० स्कूल के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक।
03	बिलन्दी के मकान से दक्षिण की ओर चलने पर बीरबल राय के मकान तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कालू गौरी के मकान से छोटू माई के मकान तक से सीधे पश्चिम की ओर चलते हुए गणपत के मकान तक से उत्तर की ओर चलते हुए रामदेव मन्दिर के सामने वाला हिस्सा (दायां) गणपत राम के मकान को शामिल करते हुए से उत्तर की ओर चलते हुए खेता सिंह के मकान तक से पूर्व की ओर चलते हुए टेकचन्द के मकान तक वहां से प्रेम कुमार के मकान से पश्चिमी दक्षिण कोने तक वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रकाश के मकान के उत्तरी पश्चिम कोने तक वहां से सीधे पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बिलन्दी के मकान तक।
04	सीआईडी आफिस से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पृथ्वी मास्टर के मकान से राकेश के मकान तक का सम्पूर्ण बाया हिस्सा से पूर्व दिशा की ओर चलने पर केशुराम के मकान से पूर्वी दक्षिणी कोने तक से उत्तर की ओर अर्जन लाल के मकान के उत्तरी पूर्वी कोने तक से पश्चिम की ओर छाबडा ड्राईवर के मकान तक से उत्तर दिशा की ओर अंग्रेज सिंह के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक से पश्चिम की ओर सीआईडी आफिस तक।
05	रामप्रसाद धानक के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर गन्दा नाला पर स्थित ट्रांसफार्मर तक वहां से दक्षिण की ओर कन्हैया सिंधी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर पालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर पश्चिम की ओर पालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर केसूराम गवारिया के मकान तक वहां से पूर्व की ओर नन्थूराम धानक के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने तक वहां से उत्तर की ओर रामप्रसाद धानक के मकान तक।
06	कृषि भूमि पर पालिका सीमा से पूर्व की ओर ओमप्रकाश भाट के मकान के सामने से होते हुए शहादाराम के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक वहां से दक्षिण की ओर अशोक के मकान तक से पूर्व की ओर बनवारी मोगा के मकान के पूर्वी उत्तरी कोने तक दक्षिण की ओर बनवारी चुघ के नौहरे (रामश्रण भवन) के पूर्वी दक्षिणी कोने तक वहां से पश्चिम की ओर ट्रांसफार्मर तक से उत्तर की ओर हरिजन बस्ती प्लाट से 179 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक से पश्चिम की ओर पालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर पालिका सीमा तक।
07	संदीप सेठी के नौहरे से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए दाया हिस्सा शामिल करते हुए कुलवंत बवेजा के मकान को शामिल करते हुए दायां हिस्सा रमेश सिडाना के मकान तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए श्याम लाल भाट के मकान तक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दाया-बाया हिस्से को शामिल करते हुए हरजीत के खेत तक व नगरपालिका सीमा तक से पूर्व की ओर चलते हुए सुखदेव के मकान तक से संदीप सेठी के मकान तक।
08	शमशान घाट नगरपालिका सीमा से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पालिका के सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए पश्चिम उत्तरी कोर्नर तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते

	हुए नगरपालिका सीमा तक से पूर्व की ओर गुड़ी फाट के मकान तक दायां बाया हिस्से को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बिल्लू के खेत तक
09	रडेवाला रोड पर दुर्गा मंदिर की उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण की ओर बलविन्द्र सिंह के मकान तक से पूर्व की ओर लीला राम धानक के मकान से बिहारी लाकड़ी के मकान के पीछे वाली सड़क से होते हुए भगवान सोनी के मकान के पूर्वी दक्षिणी कोने तक से पूर्व की ओर पटवार घर तक वहां से उत्तर की ठाकुर जी के मंदिर के सामने से होते हुए ईशरदास के गुरुद्वारे तक से पश्चिम की ओर दुर्गा मंदिर तक।
10	मेघराज के मकान से उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण की ओर पालिका सीमा तक वहां से पूर्व की ओर रामू नायक के मकान के पूर्वी दक्षिणी कोने तक से उत्तर की ओर झाबर सिंधी के मकान के सामने से होते हुए मेघराज के मकान तक।
11	ओमप्रकाश सोनी के मकान से उत्तरी पश्चिमी कोने से पूर्व दिशा की ओर कश्मीरी लाल मुंजाल के मकान के उत्तरी पूर्व कोने तक से दक्षिण की ओर चन्द्र मोहन भशीन के घर के सामने स्थित मनोहर मेघवाल के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने तक से राम प्रताप के मकान तक से ओमप्रकाश पेसिया के मकान के दाईं ओर का हिस्सा व मुकेश कम्बोज के मकान के सामने वाला हिस्सा पूर्व दिशा की ओर चलते हुए प्राथमिक स्कूल के सामने वाले हिस्से को शामिल करते हुए गुलाबअली के मकान के सामने वाले हिस्से को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर नगरपालिका सीमा तक से पश्चिम की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए ओमप्रकाश नायक के मकान तक वहां से उत्तर की ओर ओम प्रकाश सोनी के मकान तक।
12	चम्पा लाल के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी पश्चिम कोने तक वहां से दक्षिण की ओर अशरफी के मकान तक वहां से मोड़ लेकर दक्षिण की ओर सुरजीत सिंह के नोहरे के पूर्वी दक्षिण कोने तक से पश्चिम दिशा की ओर बनवारी लाल के मकान तक से मदन भसिन के मकान के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक से उत्तर की ओर रमेश आहुजा के मकान के सामने से होते हुए चम्पा लाल के मकान तक।
13	मनोज यादव की दुकान के सामने स्थित खाली मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए चम्पा लाल के मकान तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए जलन्धरा के मकान तक घुमकर पश्चिम दिशा की तरफ घुमते हुए राजू पोड़ के मकान से आगे ओप्रकाश पैन्सिया के मकान तक दक्षिण पश्चिम कोर्नर से दक्षिण दिशा की ओर मुख्त्यार सिंह के मकान तक व बाईं तरफ पानी के जोहड़ को शामिल करते हुए मुकेश कम्बोज के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए राजकीय प्राथमिक स्कूल को शामिल करते हुए जन्टा सिंह के मकान तक दक्षिण पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए चन्द्रपाल के मकान तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गुलाबअली के मकान तक से दक्षिण दिशा की ओर नगरपालिका की सीमा तक से पूर्व की ओर नगरपालिका की सीमा के सहारे चलते हुए शमशान भूमि के सामने कोर्नर पर स्थित भूखण्ड तक व उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मनोज यादव की दुकान के सामने स्थित खाली प्लाट तक

14	कुन्नर फैक्ट्री के उत्तरी पूर्वी कोर्नर (रामकली यादव) से सीधे दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा तक का सम्पूर्ण दाया हिस्सा (फायर स्टेशन पश्चिमित्सालय व शमशान घाट इत्यादि को शामिल करते हुए) तक व पूर्व की ओर नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए रेलवे क्रासिंग तक से उत्तर दिशा की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए रमेश ड्राईवर के मकान पूर्वी उत्तर कोने तक से पश्चिम की ओर चलते हुए रामकली यादव के मकान तक
15	विश्वनाथ पट्रोल पम्प से पूर्व दिशा की ओर सीधे चलते हुए सनसाईन रिसोर्ट व नगरपालिका सीमा तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सम्पूर्ण दाया हिस्सा नगरपालिका सीमा तक से पश्चिम की ओर चलते हुए हुए आलक स्टील बेल्डिंग हाउस तक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए रेलवे लाईन का सम्पूर्ण दाया हिस्से को शामिल करते हुए विश्वनाथ पट्रोल पम्प तक
16	डा. नीरज अरोड़ा के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए बनवारी लाल के मकान तक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए माणा भठेजा के मकान तक का दाया हिस्सा से पूर्व दिशा की ओर एमडी स्कूल को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दाया हिस्सा सम्पूर्ण शारदा टेलर्स तक से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दाया हिस्सा लेडी जंक्शन से आगे नथमल सोमानी तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए दाया और बाया हिस्सा को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर कुन्नर फैक्ट्री के दक्षिण पश्चिम कोर्नर तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए तथा दाये हिस्से को शामिल करते हुए बनवारी लाल के मकान तक।
17	ओमप्रकाश खिरबाट के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण दिशा की ओर ओमप्रकाश खटीक के मकान के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक वहा से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रविन्द्र कुमार के मकान तक से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए एसबीआई बैंक तक से पश्चिम की ओर चलते हुए बावा सिंह सुनार के मकान के उत्तरी पश्चिम कोने तक से दक्षिण दिशा की ओर जगदीश आहुजा के मकान तक वहां से पश्चिम दिशा की ओर ओमप्रकाश खिरबाट के मकान तक।
18	बनवारीलाल के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण दिशा की ओर किशन लाल रस्सेवट के मकान तक से संदीप सेठी के नोहरे के सामने वाला हिस्सा (बाया हिस्सा) कुलवंत बवेजा के मकान को छोड़ते हुए बाया हिस्सा सम्पूर्ण से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए लभूराम बिलंटी के मकान के पूर्वी दक्षिणी कोने तक से उत्तर दिशा की ओर ज्योति के मकान तक से पूर्व दिशा की ओर तिलक होम्योक्लिनिक तक वहां वहां से उत्तर दिशा की ओर गुप्ता फैसी स्टोर तक से पश्चिम दिशा की ओर कृष्ण वेरायटी स्टोर तक से दक्षिण की ओर हरिचंद सुनार के मकान तक वहां से पश्चिम दिशा की ओर बनवारी लाल के मकान तक।
19	पूनाराम मेघवाल के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण की ओर सामुदायिक भवन के उत्तरी पश्चिम कोने तक वहां से पूर्व की ओर शांति देवी के मकान तक वहां उसके सामने सुभाष बवेजा के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने तक वहां से दक्षिण की ओर परसराम फुटेला के मकान तक वहां से पूर्व की ओर गुरदास के

	मकान के पूर्वी दक्षिणी कोने तक वहां से उत्तर की ओर गुरुबचन चन्द पण्डित के मकान के पूर्वी दक्षिणी कोने तक वहां से पूर्व की ओर देशराज चुध की दुकान के आगे से होते हुए पप्पू सब्जी वाले की दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर पूनाराम मेघवाल के मकान तक।
20	शिव मेडीकल से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अनिल सोनी के मकान तक से उत्तर दिशा की ओर दाया हिस्सा सम्पूर्ण किशोर लाईट वाले मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर सीधे चलते हुए गुरुदयाल सिंह के मकान के उत्तरी पश्चिम कोने तक से दक्षिण दिशा की ओर सिधी धर्मशाला के पश्चिमी दक्षिण दिशा कोने तक वहां से पूर्व दिशा की ओर गाधी पार्क को शामिल करते हुए झाबर की दुकान से उत्तर की ओर शिव मेडीकल तक।
21	टीवी रिले (दूरदर्शन केन्द्र) से राजकीय क्वाटर तक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाया हिस्सा (स्कूल के सामने वाला हिस्सा) रोहिताश के मकान तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए राजेन्द्र सुनार के मकान तक से (बाया हिस्सा) पूर्व की ओर चलते हुए सतपाल गुप्ता के मकान तक का बाया हिस्सा के रेलवे लाईन क्रासिंग तक से रेलवे लाईन के सहारे-सहारे उत्तर की ओर चलते हुए टीवी रिले केन्द्र तक।
22	भगतसिंह चौक से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए भगवती फर्नीचर से आगे पदमपुर रोड नगरपालिका सीमा तक व उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नई धानमंडी के पूर्वी-उत्तरी दिशा में स्थित पानी की टंकी तक व धानमंडी के सामने वाला पश्चिम हिस्सा सम्पूर्ण फिर पानी टंकी से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गंगानगर रोड का बाया हिस्सा व हिरो मोटर स्कोप शारूम एण्ड सर्विस स्टेशन से सीधा चलते हुए नानक दरबार तक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बाया हिस्सा व सीधे चलते हुए भगतसिंह चौक तक
23	नगरपालिका सीमा पूर्वी दक्षिणी कोर्नर से दक्षिण की ओर चलते हुए राजकीय सी0सै0 स्कूल तक के बाया हिस्सा सम्पूर्ण को शामिल करते हुए आगे से थोड़ा दाई और टर्न लेते हुए सीधे बीएसएफ मन्दिर तक को शामिल करते हुए राजकीय गल्स सी0सै0 स्कूल के उत्तरी पूर्वी कोर्नर तक से पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए राजकीय क्वाटर के सामने वाले हिस्से को शामिल करते हुए टीवी रिले केन्द्र के सामने वाले हिस्से (बाया हिस्सा) को शामिल करते हुए सीधे रेलवे लाईन तक से रेलवे लाईन को क्रास करते हुए गुरुनानक दरबार के सामने दुकान के पीछे तक से गंगानगर रोड पर वेयर हाऊस के पास मोर्चे तक वहां से उत्तर दिशा की ओर नगरपालिका सीमा तक को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम दिशा की ओर नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चलतु हुए रेलवे लाईन को पार करते हुए नगरपालिका सीमा के पूर्वी दक्षिण दिशा कोर्नर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए राजकीय सी0सै0 स्कूल तक
24	उत्तर की ओर नगरपालिका सीमा से बिहारीलाल के मकान के उत्तरी पश्चिम कोने से दक्षिण की ओर हरबन्स सिंह के मकान तक से पश्चिम दिशा की ओर राजेन्द्र सिंह सन्धू के मकान के पश्चिमी उत्तरी कोने से दक्षिण की ओर बोर्डिंग हाऊस के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक से पूर्व की ओर चलते हुए रेडोलेन्स स्कूल के सामने वाला

	मकान को शामिल करते हुए से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए राजू चुध के मकान तक से पूर्व की ओर चलते हुए राजकीय गल्स स्कूल के बाया हिस्सा को शामिल करते हुए राजकीय गल्स स्कूल के उत्तरी पूर्वी कोर्नर तक से सीधे उत्तर दिशा की ओर वाटर वर्क्स के पूर्वी उत्तरी कोने तक से पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिहारी लाल के मकान तक।
25	नगरपालिका सीमा के पूर्वी उत्तरी कोने पर दशेन सिंह के मकान से पूर्व की ओर पालिका सीमा तक वहां से दीवार के साथ-साथ चलते हुए त्रिलोचन सिंह के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसैन पार्क के पूर्व-दक्षिणी कोने तक वहां से पश्चिम की ओर हरिकिशन के मकान एवं पुराने चुगी नाके के सामने से होते हुए पश्चिम की ओर स्थित खाली प्लाट उत्तरी पश्चिमी कोर्नर तक से सीधे उत्तर की ओर चलते हुए बलकरण सिंह व दाये हिस्से को शामिल करते हुए नगरपालिका सीमा तक

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीकरणपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।